



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 567]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

**सा.का.नि. 705(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, (ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 (शस्त्र शाखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 (शस्त्र शाखा) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए और जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 (शस्त्र शाखा)	1 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए nk वर्ष	<b>संयुक्त पद्धति द्वारा</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	परिस्थितियों, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
11	12	13
<b>संयुक्त पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति :</b>  केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा स्वशासी संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है, या  (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:-  (i) इंजीनियरी (यांत्रिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी) में स्नातक उपाधि और साथ ही प्राक्षेपिकी जिसमें अश्रु गैस भी है तथा उसमें अनुसंधान और विकास का चार वर्ष का अनुभव; या (ii) इंजीनियरी (यांत्रिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी) में मास्टर डिग्री और साथ ही प्राक्षेपिकी जिसमें अश्रु गैस भी है तथा अनुसंधान और विकास का दो वर्ष का अनुभव; या (iii) विज्ञान (भौतिक विज्ञान) में मास्टर डिग्री और प्राक्षेपिकी जिसमें अश्रु गैस भी है तथा उसमें अनुसंधान और विकास का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p><b>टिप्पण 1:—</b> ऐसा विभागीय ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिसने वेतन बैंड-2 (9300—34,800 रु०)+ ग्रेड वेतन 4200 रु० में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो, पर भी विचार किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:—</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:—</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:—</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, <b>सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिये ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिशत ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</b></p>		
--	--	--

[फा. सं. 23011/100/2014—पी.टी.]

जी. सी. यादव, उप सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2015

**G.S.R. 705(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Senior Scientific Officer, Grade-I) Recruitment Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Officer, Grade-I (Weapons Branch) in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Senior Scientific Officer, Grade I (Weapons Branch) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualifications.** – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Officer, Grade I (Weapons Branch).	01* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100 plus grade pay Rs. 6600.	Not applicable.	Not Applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not Applicable.	Not Applicable.	Two years for promotees.	By Composite Method [Deputation (including short term contract) plus promotion].

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<b>Composite Method</b> <b>Deputation (including short term contract) plus promotion:</b> Officers of the Central or State Government or Union Territories or Universities or recognized Research Institutions or Autonomous Organizations under Central or State Government or Public Sector Undertakings:- (a) (i) holding analogous post in the parent cadre or Department after appointment thereto on regular basis; or  (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in PB-3: Rs. 15,600 – 39,100 plus grade pay Rs. 5400 or equivalent in parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: - (i) Bachelor's Degree in Engineering (Mechanical or Applied Physics) plus four years experience in the field of ballistics including tear smoke munitions and research and development therein; or	Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

<p>(ii) Master's Degree in Engineering (Mechanical or Applied Physics) plus two years experience in the field of ballistics including tear smoke munitions and research and development therein; or</p> <p>(iii) Master's Degree in science (Physics) plus three years experience in the field of ballistics including tear smoke munitions and research and development therein;</p> <p><b>Note 1.</b>The departmental Senior Scientific Assistant with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the Pay Band -2: Rs 9300-34,800 plus grade pay Rs.4200 and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationist shall also be considered. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3.</b>The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years of age as on the date of closing of the receipt of application.</p> <p><b>Note 4.</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> Jan., 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>		
---	--	--

[F. No. 23011/100/2014 -PT]

G. C. YADAV, Dy. Secy.